



“श्री हंसविजयजी जैन श्री लायब्रेरी. द्वितीय पुष्प”

श्री विमलाचार्य विरचित-

श्री संवेगाद्रुसककच्छी.

सरहस्य

बडोदरा निवासी शा दलपतभाइ जगजीवनदासनां धर्म पत्नी

श्रीमती इच्छाबाइना श्रेयोर्थे

प्रसिद्ध कर्ता.

श्री हंसविजयजी जैन श्री लायब्रेरी बडोदरा.



# ॥ पुष्पाञ्जलिः ॥

॥ श्रीहंसमुनिगुणपञ्चकम् ॥

( शार्दूलविक्रीडितम् )

यद्वागाङ्गपयःप्रवाहपतिता भव्या जना भारते  
भीमं कर्मतरङ्गितं भवमहाम्भोधिं तरन्ति क्षणात् ॥  
तं चारित्रगुणोल्लसत्सुहृदयं स्फूर्जद्वयं धीवरं  
श्री निर्ग्रन्थवरं सुहंसविजयं वन्दामहे सादरम् ॥ १ ॥  
यद्दीक्षावसरे मुनीशविजयानन्देन प्रोद्घोषितं  
प्राप्तः शिष्यवरोऽद्य सद्भक्तिकुलात् लक्ष्मीविजेतुः करात् ॥  
स प्रोद्भेद्यति साधुवर्गमखिलं सत्कीर्तिकोटिं मुनिः  
श्रीसम्पद्भिज्जयेन तं मुनिवरं वन्दामहे सर्वदा ॥ २ ॥  
यः संपद्भिज्जयेन विष्णुमजयद्, ब्रह्मावरोहाद्विधिं  
रुद्रं चाधरयत्सुसत्त्वधरणात्पत्नीपरित्यागतः ॥

तं ब्रह्मेशहरिप्रभावत इहाधिक्यं दधानं मुनिं  
ध्यायामो मुनिहंसमेव सततं, हंसस्य शुद्धौ वयम् ॥ ३ ॥  
यो जातो वटपत्तने नखरात् श्रीमज्जगज्जीवनात्  
माणिक्योदरतः कथं स न भवेत् हंसः सुहंसस्थितिः ॥  
यः सूर्यस्य करग्रहेऽवगुणहृग् जातः स्वयं निर्मल-  
स्तं हंसं प्रणिद्धमहे मुनिवरं चास्मन्मनोमानसे ॥ ४ ॥  
श्रीमान्हंसमुनिः सदा विजयते हंसं मुनीशं भजे  
हंसेन प्रविदारिताघपटली, हंसाय नित्यं नमः ॥  
हंसात्कर्मततिर्विभेति सततं हंसस्य बोधोऽतुलो  
हंसेऽस्थात् श्रुतदेवता सुविमला, हे हंस मामुद्धर ॥ ५ ॥

श्रीहंसमुनिभक्तेन, नर्मदाशिवशर्मणा दरापुरे विरचितं, श्रीहंसगुणपञ्चकम् ॥ १ ॥

## प्रस्तावना.

परम उपकारी अने निस्पृह जैन महात्माओए भव्य प्राणीओनी मुक्तिने माटे वैराग्यना अनेक ग्रंथोनी रचना करेली छे.

जन्मथी ते मरण पर्यंत पांच इंद्रियोना विषय सुखमाटे अनेक जातना व्यापारो करी ते आशा सफळ थवा माटे, मनुष्यो बहुज परिश्रम करे छे अनेक कष्टो सहन करे छे; परंतु ते सुख आशा; तत्व द्रष्टाओने तो दूरनीदूर जती देखाय छे ! आवा विनाशी सुखनी आशा नहि राखतां अविनाशी सुखनी आशा धारण करवी के जे प्राप्त करवाने माटे संवेग मार्ग एज एक सुगम सुलभ अने सुखकर साधन छे. जैन धर्मनो सनातन सततवाही प्रवाह, दरेक प्राणीओने दुःखमांथी उद्धरी कल्याण वासनाने उत्तेजित करतो वहे छे अने आ संसार तरफ तीव्र वैराग्य स्फुरावे छे. जैनागमना पारगामी अने आर्हत तत्त्वनिष्ठ गुरु महाराजाए परम श्रेयने अर्थे भवि आत्माना परम पुरुषार्थनी सिद्धि साधकने संवेग मार्ग बताव्यो छे, एज मार्ग शाश्वतसुखनी प्राप्तिनुं अनुपम सुख्य साधन छे, अने ते साधनना प्रभावथी बहिरात्म प्राणीओ अंतरात्मपणुं धारण करी परमात्मपणुं प्राप्त करी शक्या छे. तेमज करी शके छे. संवेग ए एक एवी अपूर्व वस्तु छे के-कर्मोथी जकडाइ गएला जीवने एकांतपणे मोक्ष महेलमां पहोचवा माटे एक उंचा प्रकारना सोपान-लिफ्ट-समान छे.

आ ग्रंथना कर्ता श्रीमान विमलाचार्य महाराजे तेज रीते संवेगनु उत्तम स्वरूप बताव्युं छे. एनी रचना श्रीभर्तृहरि रचित वैराग्य शतक शैली करतां पण वधारे सुंदर छे एटलुंज नहि, परंतु उक्त महात्माए ग्रंथनी शरुआतमां जणाव्युं छे के, अंतःकरण रुपी मदोन्मत्त हाथी धर्मरुपी उद्याननो महान उच्छेद करवाने प्रवर्त्यो छे तेने कवजे राखवाने आ ग्रन्थमां पचाश श्लोकरुपी मजवूत कोटडीनी आरंभ करवामां आवे छे एटले उन्मत्त थयेला मनने कोटडीमां पूरवामां आवे छे.

सारांशके आ पचास श्लोकवाळो ग्रंथ वांचे अथवा सांभळे तेमनुं उन्मत्त हृदय शांत थइ ( कवजामां आवी जइ ) संवेग रुपी सोपान उपर चडी, आत्मा मोक्षमहेलमां पहेची जायछे. आ रहस्यने सुचवनार आ ग्रंथनुं नाम श्री संवेगदुःम कंदली एटलाज माटे कर्ताए राख्युं छे एम जणाय छे दरेक मनुष्यने एकांते हितकर आग्रंथ खास मनन करवा जेवो छे तेथी तेनुं प्रातःस्मरणीय जैनाचार्य श्रीमद्विजयानंद सूरि-आत्मारामजी-महाराजना सुप्रसिद्ध प्रशिष्य जीवदयाना चुनंदा हिमायती शांतमूर्ति सतत उग्र-विहारी मुनिमहाराज श्री १०८ श्री हंसविजयजी महाराज साहेवनी भलामणथी सरळ भापांतर करावी मूळ साथे जैन समाजपासे मूकतां महद् लाभ थया वगर रहेशे नहि एमधारी आ उत्तम पुस्तक प्रसिद्धिमां सुक्युं छे. सदरहु ग्रंथनी शुद्धिने माटे पूर्वोक्त परमोपकारी महाराज श्रीहंसविजयजी महाराजनी पासे यथा शक्ति प्रयत्न करवामां आव्यो छे, छतां प्रमाद हृष्टि दोषथी कोइस्थळे स्वलना जणायतो क्षमा याचीए छीए.

आ ग्रंथ प्रसिद्ध करवामां पोतानां सद्गत सुशीलापत्नी इच्छाबाइना स्मरणार्थे आर्थिकसहाय आपनार मुनिमहाराज श्री हंसविजयजी महाराजना वृद्ध धाता दलपतभाइ-जगजीवनदास वडोदरावाळाने धन्यवाद आपीए छीए, अने भाषांतर करावी आपवा छपावी आपवा विंगेरे माटे करेल किंमती सहाय-सूचना माटे, श्री जैन आत्मानंद सभा भावनगरनो उपकार मानीए छीए.

ली. लालचंद एम शाह ओनररी सेक्रेटरी श्रीहंसविजयजी जैन फ्री लायब्रेरी-वडोदरा.





श्रीविमलाचार्य विरचित.

# संवेगद्रुमकन्दली.

( गुर्जर भाषांतर. )

मंगलाचरण.

दूरीभूतभवार्त्तिभिः प्रविदलन्मोहान्धकारोदयै-  
नासावंशनिवेशितेक्षणयुगैर्ध्वङ्गीक्ष्यते योगिभिः ।  
तत्पारे परतेजसां च तमसां प्राप्तप्रतिष्ठं परं  
दुर्लक्ष्यं परमात्मसंज्ञममलं ज्योतिर्जयत्यक्षयम् ॥ १ ॥

जेमणे संसारनी पीडाओ दूर करीछे अने मोहरूपी अंधकारना उदयनो नाश कर्यो छे. एवा योगीपुरुषो  
पोतानी नासिकाना अग्र भाग उपर बने नेत्रो राखी जेतुं निरीक्षण करे छे. अने जे परम तेज तथा अंधका-  
रनी पार प्रतिष्ठा पामी रहेछे छे एवुं परम दुर्लक्ष्य परमात्मा रूप निर्मल अने अक्षय ज्योति जय पामेछे. १

१ “परमासंज्ञं” इत्यपि ।

रागद्वेषमंदाभिमानमदनक्रोधादिभिर्वैरिभि-  
व्याप्तं सर्वमिदं चराचरमिति प्रायो जगज्जित्वाः ।  
इत्यन्तःकरणप्रमत्तकरिणः सोऽलुण्ठमुच्छिन्दूतो  
धर्माराममसौ नियन्त्रणकुटी पञ्चाशदारभ्यते ॥ २ ॥

ग्रंथ प्रयोजन.

प्रायेकरीने राग, द्वेष, मद, अभिमान, काम अने क्रोध वगेरे विजयी वैरीओथी आ सर्व चराचर जगत् व्याप्त थयेलुं छे, तेथी अंतःकरण रुपी मदोन्मत्त हाथी धर्म रुपी उद्याननो महान् ऊच्छेद करवाने प्रवर्त्यो छे. ते हाथीने कवजे राखवाने माटे आ पचाश श्लोक रुपी मजबूत कोटडीनो आरंभ करवामां आवे छे. २

चेतः किन्न वृथालजालयुपिले बद्धा भवेऽस्मिन् रतिं  
सामग्रीं विफलीकरोषि सुचिरालुब्ध्वा विशुद्धामिमाम् ।

१ जेम कोइ ऊन्मत्त हाथीने कवजे करी मजबूत मोटी कोटडीमां पूरवामां आवे छे तेम आ पचाश श्लोकवालो ग्रंथ जे वांचे अथवा सांभळे तो तेनुं उन्मत्त हृदय शांत थइ जाय छे—मन कवजामां आवीजाय छे.

क्षान्तिं मार्दवमार्जवं च शुचितां मुक्तिं तपः संयमं  
सत्यं निर्धनताममैथुनमिमं धर्मं कुरुष्ववादरात् ॥ ३ ॥

प्राप्त थयेली शुद्ध सामग्रीने निष्फल करनारा हृदयने  
उपालंभ पूर्वक धर्मनो आदर करवानो उपदेश-

हे चित्त ! वृथा आळ जाळथी गुंथाएला आ संसारमां प्रीति बांधीने लांबे काले प्राप्त थयेली शुद्ध  
सामग्रीने तुं शामाटे निष्फल करे छे ? क्षमा, कोमळता, सरळता, पवित्रता, मुक्ति, तपस्या, संयम सत्य,  
अपरिश्रम अने ब्रह्मचर्य रुप दशप्रकार धर्मतुं आदरथी सेवन कर. ॥ ३ ॥

येनान्धीकृतमानसो न मनुते प्रायः कुलीनोऽपि सन्  
कृत्याकृत्यविवेकमेत्यधमवल्लोके परित्याज्यताम् ।  
धर्मं नो गणयत्यतिप्रियमपि द्वेष्टि स्वयं स्त्रियते  
स क्षान्तिश्रुरिकाधरेण हृदय क्रोधो विजेयस्त्वया ॥ ४ ॥

१ प्रथम क्षमाथी क्रोधने जीतवानो उपदेश-

हे हृदय ! जे माणसनुं मन क्रोधथी अंध थइ जाय छे. ते माणस कुलवान् होय तो पण कृत्य

अने अकृत्यनो विवेक जाणी शकतो नथी, ते नीच माणसनी जेम लोकमां त्याग करवा योग्य थइ जाय छे. ते धर्मने गणतो नथी, ते पोताना प्रिय जननो पण द्वेष करे छे अने पोते पण खेद पामेछे, तेवा नठारा क्रोधने तारे क्षमारुपी छरीने धारण करी जीती लेवो जोइए. ॥ ४ ॥

आत्मानं परितापयत्यनुकलं जन्मान्तरेष्वप्यलं

दत्ते वैरपरंपरां परिजनस्योद्वेगमापादयेत् ।

धत्ते सद्गतिमार्गरोधनविधौ गन्धद्विपत्वं ततः

क्रोधस्येत्थमरे ! रिपोः क्षणमपि स्थातुं कथं दीयते ? ॥ ५ ॥

क्रोधने शामाटे स्थान आपबुं जोइए ?

अरे हृदय ! जे क्रोध रूपी शत्रु क्षणे क्षणे आत्माने परिताप करेछे, जे जन्मांतरमां पण परंपराए पूर्ण वैर करावे छे, जे परिजन-परिवारने उद्वेग करावे छे अने जे सद्गतिना मार्गनो निरोध करवामां तो मदीन्मत्त हाथीना जेवो बनेछे. तेवा क्रोध रूपी शत्रुने तुं शामाटे क्षणवार पण स्थान आपेछे ? ॥ ५ ॥

एष्यद्गति पातभीत इव यं कृत्वा स्वयं कम्पते

यद्भीतैरिव मांसशोणितरसैः कायः परित्यज्यते ।

खानिर्दुःखगणस्य निर्मलगुणस्लान्थेकहेतुर्मनः

क्षान्त्या हन्त विलक्षतां निजरिपुः क्रोधो हवग्ननीयताम् ॥ ६ ॥

क्षमाथी क्रोध रूपी शत्रुने बलात्कारे विलखोज करी नांखवो जोइए-  
हे मन ! जे क्रोधने लइने माणस भविष्यमां थवानी दुर्गतिमां पडवाथी ब्हीतो होय तेम कंपी उठे  
छे, जेना भयथी जाणे ब्हीता होय तेम मांस तथा रुधिरना रसो शरीरने छोडी दे छे, जे दुःखना समू-  
हनी खाण रुप छे, अने जे निर्मल गुणोने ग्लानि आपवामां मुख्य कारण रुप छे, तेवा तारा क्रोधरुपी  
शत्रुने तुं क्षमा गुणथी बलात्कारे विलखो बनावीदे. ॥ ६ ॥

आम्यत्पूर्ध्वमुखः क्षमो नमयितुं पूज्येऽपि नो कन्धरा-

मन्तःक्षिप्तकुशीलतावशतनुः प्राणी यदध्यासितः ।

तं मानं विपदां निधानमयशोराशेर्निदानं सदा

मुत्तवा मार्दवमादरेण महता चेतः ! समभ्यस्यताम् ॥ ७ ॥

१ क्रोधी माणस क्रोधना आवेशथी भुजे छे, तेना शरीरमां मांस तथा रुधिर शोषाइ जाय छे, ते दुख पामे छे अने तेना  
सारा गुणो टंकाइ जाय छे. तेवो भावार्थ आ श्लोकमां उपजावेलो छे । २ कुशी(कोश)एव लता अथवा कुशीलता दुःशीलता ।

२ मार्दव-कोमळताना गुण विषे.

मानने छोडी कोमळता मेळववा अभ्यास करवो जोइए,  
हे चित्त, जो मानना अध्यासथी माणसनुं शरीर अंतःकरणमां खोसेली कुशीलता-लोढानी कोश-  
थी जकडाइ जाय छे, तेथी ते माणस पोतानुं मुख उंचुं राखी चाले छे अने पूज्य पुरुषनी तरफ पोतानी  
प्रीवा नमाववाने पण समर्थ थतो नथी, तेवा विपत्तिओना भंडार रुप अने अपकीर्तिना कारण रुप मा-  
नने छोडीदइ मोटा आदर वडे तारे मार्दव-कोमळता मेळववा माटेज अभ्यास करवो.

विश्वस्तानपि वञ्चयत्यनुदिनं मित्रे गुरौ बन्धुषु  
प्रायेण च्छलमीक्षते क्षणमपि द्रोहं विना दुःस्थितः ।

जागर्ति स्वपिति प्रतारणधिया यां सेवयन्निस्त्रयो

मायायाः प्रतिकूलमार्जवमरे तस्याः समासेव्यताम् ॥ ८ ॥

३ सरळताना गुण विषे.

मायाने दूर करवा सरळतानी अभ्यास करवो जोइए.  
हे चित्त ! जे मायाने सेवनारी पुरुष निर्लज थइने प्रति दिवस विश्वासी माणसोने छेतेरे छे प्राये-

१ अंतःकरणमां र्हेल कुशीलता एटले दुःशीलता एवो पण अर्थ थइ शके.

કરીને પોતાના મિત્ર, ગુરુ, અને બંધુઓમાં પણ છલકની દૃષ્ટિએ જુવે છે, ક્ષણવાર પણ દ્રોહ વિના રહી શકતો નથી અને હંમેશા બીજાને છેતરવાની બુદ્ધિ રાખી જાગે છે અને સુવે છે અર્થાત્ જાગતાં અને સુતાં પણ બીજાઓને છેતરવાનાજ વિચારો કર્યા કરે છે, તેવી માયાને પ્રતિકૂલ એવી સરકતા રાખવી જોઈએ તેથી તું તેનું સેવન કર. ॥ ૮ ॥

તૃષ્ણાવહ્ચિરિયં નૈવ વિધિનાપ્યેતેન નિષ્પાદિતા  
 છેતું પ્રક્રમિતા કિમપ્યતિતરાં યા કેવલં વદ્ધતે ।  
 તહ્નોમસ્ય વિજૃમ્ભિતં સ સકલક્લેશપ્રસૂતિસ્તતો  
 મુક્તિર્મુક્તિવદ્ધૂસમાગમવિદ્યૌ દૂતી સમારાધ્યતામ્ ॥ ૯ ॥

લોભથી મુક્ત રહેવું જોઈએ.

હે ચિત્ત ! જે લોભ તૃષ્ણા રુપી એક નવી જાતની વેલ વિધિએ, ઉત્પન્ન કરેલ છે, કે જે વેલનો ઇચ્છેદ કરવા જતાં હલદી તે વધારેને વધારે વધતી જાય છે, તે લોભનુંજ વધતું જતું સ્વરુપ છે, અને વઢી જે લોભ સર્વ જાતના કલેશોને ઉત્પન્ન કરનારો છે, તેવા લોભમાંથી જે મુક્તિ ( હુંટવું ) તે મુક્તિ ( મોક્ષ ) રુપી વધૂનો સમાગમ કરાવવામાં દૂતી રુપ છે, તેથી તું તેનું આરાધન કર. ॥ ૯ ॥



तीर्थं तीर्थमरे परिभ्रमसि किं खेदाय दत्त्वा मनः ?  
 स्नानाद्वाह्यमलोऽप्यपैति न पुनर्भावानुबन्धः क्षयम् ।  
 आत्मा चैष कलङ्कितोऽन्तरमलैः शुद्धिं ततः किं भजे-  
 च्छौचं तत्तदहो कुरुष्व कुरुते तेषां यदुच्छेदनम् ॥ १० ॥

४ शुचिता-पवित्रताना गुण विषे.

बाह्य शौच नहीं करतां अंतःशौच करवुं जोइए.

हे भव्य ! तुं तारा हृदयने खेद आपी तीर्थं तीर्थं शामाटे भमे छे ? तीर्थमां स्नान करवाथी बाह्य मळनो क्षय थशे पण भाव मळ-अंदरना मळनो क्षय थशे नहीं. अंदरना मळोथी कलंकित थयेलो तारो आत्मा शरीरते शुद्धिने पामशे ? तेथी जे रीते अंतरना मळो उच्छेद पामे तेवुं तुं शौच कर. ॥ १० ॥

निस्तीर्णां बहवस्तरन्ति बहवो भव्यास्तरिष्यन्त्यपि  
 क्लेशांभोधिमगधमप्यतितरां चीर्णेन येन ध्रुवम् ।

१ भावानुबन्धः भावगतो मलः ।

बाह्याभ्यन्तरभेदभिन्नमचिरात्संसारकाराग्रह-  
क्रूरद्वारकपाटभेदि तदरे स्फीतं तपस्तप्यताम् ॥ ११ ॥

५ तपना गुण विषे.

दुःखीना अगाध समुद्रने तारनारुं तप करबुं जोइए.

हे भव्य ! जे तप आचरवाथी दुःखीना अति अगाध एवा समुद्रने घणां भव्य मनुष्यो निश्चे तरी गया छे, घणांओ तरे छे अने घणांओ तरी जशे, अने जे तप आ संसार रूप कारागृहना घातकी द्वारना कमाडने तरतज भेदनारुं छे, तेबुं ते बाह्य अने आभ्यंतर एवा भेदवाळुं उत्तम तप तुं तप्या कर. ॥११॥

आत्मनिच्छसि हन्त शार्धतपुरीमार्गे विहर्तुं यदि  
भ्रातः ! संयमवर्मणा कुरु तदा रक्षाविधिं सर्वतः ।

नो चेदिन्द्रियतस्कैरैस्त्व हठात्तीक्ष्णाग्रभूरिस्फुर-  
च्चिन्ताभल्लियतैर्विभिद्य हृदयं ग्राह्यो विवेको मणिः ॥ १२ ॥

मोक्ष पुरीने मार्गे जवा माटे संयम रूपी कवच धारण करवुं जोइए.  
 अरे आता आत्मन् ! मोक्षपुरीने मार्गे विहार करवानी जो तारी इच्छा होय तो तुं संयम रूपी कवच धारण करीने सर्व तरफथी तारी रक्षा करजे, जो तुं ते रक्षा नहीं करे तो इंद्रिय रूपी तस्करो तीक्ष्ण अत्र-वाला फरकता चिंता रूपी सैकडो भालाओथी तारा हृदयने तोडी तेमां रहेला विवेक रूपी मणिने बलत्कारे ग्रहण करी लेशे ! ॥ १२ ॥

पुण्यानां प्रकटप्रवासपटहः प्रस्थानसन्मङ्गलं

माहात्म्यस्य यद्त्र मन्त्र इव यत्कीर्त्तैः समुच्चारणे ।

आत्मापि स्वयमेव लज्जत इव प्रायो यदुच्चारणे

तन्मुञ्चानृतमाहतः कुरु सखे ! सत्येन सत्यं मुखे ॥ १३ ॥

७ सत्यना गुण विषे.

नठारा असत्य वचनने छोडी प्रतिज्ञाथी सत्य बोलवुं जोइए.  
 हे सखे ! जे असत्य वचन पुण्योनो प्रगट रीते प्रवास कराववामां पटह ( ढोळ ) रुप छे, जे महात्मा

१ प्रतिज्ञया. २ पटले असत्य वचन बोलवाथी पुण्य चाखुं जाय छे अने माहात्म्य घटी जाय छे.

पणाने प्रयाण करवानुं उत्तम मंगळ रूप छे, जे कीर्तिने उच्चाटन करवाना मंत्र रूप छे, अने जेनो उच्चार करवामां प्रायेकरी आत्मा पोते पण शरमातो होय तेम लागे छे, तेवा असत्य वचनने छोडी दे अने प्रतिज्ञाथी मुखमां सत्य वचननुं आदर पूर्वक ग्रहण कर. ॥ १३ ॥

कः कस्येह न को न कस्य किमिह स्वस्थाथ किं चापर-  
स्येत्थं चित्त ! भवस्वरूपमखिलं सञ्चिन्त्य मायामयम् ।  
स्वर्णं लेष्टुमथो प्रियं रिपुमथो वेदमान्यरण्यान्यथो  
स्त्रैणानीह तृणान्यथो समदृशा पश्यन् भवाकिञ्चनः ॥ १४ ॥

८ अपरिग्रहना गुण विषे.

सर्वत्र समदृष्टि थइ निष्किंचन थबुं जोइए.  
हे चेतन, 'कोनुं कोण छे. ?' कोइ 'कोइनुं नथी' अने 'आपणुं शुं छे अने बीजानुं शुं छे' ? एवी रीते आ बधुं मायामय संसारनुं स्वरूप चिंतवी स्वर्ण अने माटीनुं ढेफुं, प्रियमित्रो अने शत्रुओ, घरो अने जंगलो, अने स्त्रीओ अने तृण ए सर्व समदृष्टिथी जोइ तुं निष्किंचन-परिग्रह वगरनो था. ॥ १४ ॥

यन्मुक्तः किल चक्षुषेव रहितः प्राणी न विभ्राजते  
 सर्वाङ्गं सुभगोऽपि हि व्रतविधेर्धर्मस्य यज्जीवितम् ।  
 धीराणामपि देवदानवनृणां यत्सर्वथा दुष्करं  
 तत्संसारलतालवित्रममलं रे ब्रह्मचर्यं भज ॥ १५ ॥

९ ब्रह्मचर्यना गुण विषे.

आ संसार रूपी लताने छेदनारा निर्मल ब्रह्मचर्यने सेवबुं जोइए.  
 हे चेतन ! ब्रह्मचर्यथी रहित एवो पुरुष सर्व अंगे सुंदर एवो प्राणी जेम नेत्र वगरनो शोभे नहीं,  
 तेम शोभतो नथी, जे ब्रह्मचर्य व्रतविधिना धर्मनुं जीवन रूप छे, अने जे ब्रह्मचर्य धीर एवा पण  
 देव, दानव अने मनुष्योने सर्वथा दुष्कर छे, तेवा संसार रूपी लताने छेदनारा निर्मल ब्रह्मचर्यनुं तुं  
 सेवन कर. ॥ १५ ॥

दिक्षु भ्राम्यसि यासि पारमुद्धेर्दैन्यं समालम्बसे  
 सेवामिच्छसि गच्छसि प्रतिग्रहं बद्धाञ्जलिर्याचसे ।

१ संसारलताविच्छेदकं.

किं किं नास्य कृते करोषि वपुषो रे जीव ! लोकान्तर-  
प्रस्थाने तु पदान्तरेऽपि भवता साङ्गं न तद्यास्यति ॥ १६ ॥

१० देहनी अनित्यता विषे

आ देह कदिपण परलोकमां साथे आववानो नथी.

हे जीव ! आ शरीरने अर्थे तुं शुं नथी करतो ? तुं तेने माटे दिशाओमां भटके छे, समुद्र पार जाय छे. दीनता करे छे सेवा (नोकरी) करवानी इच्छा राखे छे. घेर घेर भटके छे अनेबे हाथ जोडीने मागे छे, पण ज्यारे तुं परलोकमां प्रयाण करीश, ल्यारे ते शरीर तारी साथे एक पगळुं पण आववातुं नथी ॥ १६ ॥

लोकैभ्यः शृणुमः प्रतिक्षणमिमां संसारनिःसारतां

निःसन्देहमथात्मनाप्यहरहः प्रत्यक्षमीक्षामहे ।

किन्त्वेकान्तनितान्तसौख्यफलदे संवेगतुङ्गद्रुमे

नारोढुं क्षमसे दृढं निर्गण्डितो जीवः स्वकैः कर्मभिः ॥ १७ ॥

११ कर्मनी शक्ति विपे.

पोताना कर्मोथी जक्कड बंधाएलो जीव संवेग रुपी ऊंचा वृक्ष उपर चडी शक्ततो नथी.  
 'आ संसार निसार छे' एबुं अमे वारंवार लोकौ पासेथी सांभळीए छीए अने 'ते निसंदेह छे.  
 एबुं अमे अमारी जाते हंमेशा प्रत्यक्ष पणे जोइए छीए, ते छतां पोताना कर्मोथी जक्कड बंधाएलो जीव  
 एकांतपणे मोक्ष सुखना फलने आपनारा संवेग रुपी उंचा वृक्ष उपर चडी शक्ततो नथी ॥ १७ ॥

रे रे मानस ! निन्दितेषु विबुधैः कामेषु बध्वाग्रहं

किं किम्पाकफलेष्विवान्तविरसेष्वेतेषु धत्से रतिम् ? ।

संहत्याशु बहिर्भ्रमं कुरु किमप्यालोच्य तन्नो पुन-

येनास्मिन् जगति प्रकामकटुभिः कष्टैरुपद्रूयसे ॥ १८ ॥

१२ कामासक्ति त्याग करवा विपे.

किंपाकना फलनी जेम विरस एवा कामने विपे आसक्ति छोडी देवी जोइए  
 अरे मन ! विद्वानोए निंदेला अने किंपाकना झेरी वृक्षनी जेम परिणामे विरस एवा काम-विप-  
 योमां आग्रह बांधीने तुं शमाटे प्रीति करे छे ? अने वाहेरनो भ्रम सत्वर छोडी दइ कांइ पण विचारी  
 ने काम कर के जेथी आ जगतमां अति कडवा एवा कष्टोथी तने उपद्रव थाय नहीं ॥ १८ ॥

हंहो मानस ! कथ्यतां मम पुरः पृच्छामि सप्रश्रयं  
रे निर्लक्षण ! शिक्षिता कुत इयं निःसीमनिर्लज्जता ? ।  
अस्य स्वार्थपरायणस्य वपुषः कृत्येषु मूढादरा-  
दात्मायं सहजोऽपि निर्दय यतः खेदाय सङ्कल्प्यते ॥ १९ ॥

१३ शरीरना मोह विषे

आ स्वार्थी शरीरना कामने माटे संकल्प विकल्पो  
करी आत्माने खेद आपवो न जोइए.

हे लक्षण रहित मन ! हुं तने नम्रता साथे पुछुं छुं के, आवी बेहद निर्लज्जता तुं क्यांथी शीख्युं ?  
ते मने कहे हे मूढ, हे निर्दय, जे आ स्वार्थमां तत्पर एवा शरीरना कार्योमां आदर राखी तुं तारा  
सहज आत्माने संकल्प विकल्पोथी खेद पमाडे छे ॥ १९ ॥

भूयो भूयोऽपि रे रे गतभय ! भवता आस्यता भीमभीमे  
संसारेऽस्मिन् विसोढाः कति कथय महावेदनाः कर्म दोषात् ? ।

१ स्वामाचिक्रोऽपि ।



जानानोऽप्येतद्देवं प्रतिदिवसमहो तद्विद्वानेषु कस्मा-  
दात्मज्ञैकान्तमूढः कलयसि विषयेष्वेव सौख्याभिमानम् ॥ २० ॥

१४ विषयोना कटुफल विषे.

॥ विषयोमां सुखनुं अभिमान न राखनुं जोइए ॥

हे निर्भय आत्मन् ! कर्मना दोषथी आ अति भयंकर संसारमां वारंवार भमीने तें केटली महा वेदना-  
ओ सहन करी ? ते कहे. ए मोटी वेदनाओनुं कारण विषयो छे, ए वात तारा जाणवामां छे, छतां  
तुं अतिमूढ थइने हंमेशा ते विषयोमां सुखनुं अभिमान शामाटे राखे छे ? ॥ २० ॥

अभ्यस्तैः किमु पुस्तकैः किमथवा चेष्टाभिरेकान्ततः

कष्टाभिः किमु देवतादिविषयैः पूजाप्रणामादिभिः ।

चेतश्चेदिदमर्कतूलतरलं शक्येत रोहं वलात्

कामेभ्यः करपङ्कजे ननु तदा सौख्यानि सर्वाण्यपि ॥ २१ ॥

जो चितने विषयोमांथी अटकावामां आवे तो सर्व सुख हाथमां ज छे.

हे भव्य ! तारे घणां पुस्तकोनो अभ्यास करवानी कांइ जरु नथी, एकांत पणे कष्ट भरेली तप-

१ तद्विद्वानेषु तद्वेदनामूलकारणेषु ।

स्यानी चेष्टाओ करवानी पण जरु नथी, अने देवता वगेरेने पूजा तथा प्रणामादि करवानी पण जरु नथी जो आकडाना रुना जेवा चंचळ चित्तने विषयोमांथी बलात्कारे अटकाववानी तारामां शक्ति होय तो पछी सर्व सुखो तारा हाथमांज छे, एम समंजी लेजे ॥ २१ ॥

संप्राप्ताः शतशः श्रियः सरभसं भुक्तानि सार्द्धं सुर-  
स्त्रीभिः कामसुखानि तान्यपि सुहृभ्राम्यद्भिरस्मिन् भवे ।  
किन्त्वालोचय निर्विकल्पकधिया भूत्वापि यन्नो भवेत्  
तच्चेतः ! कथमुच्यते किल सुखं दुःखं तदेकान्ततः ॥ २२ ॥

॥ जेने सुख मानवामां आवे छे, ते एकांते दुःखरूप ज छे ॥

आ संसारमां वारंवार भ्रमण करनारा प्राणिओए हे चित्त ! सैकडोवार संपत्तिओ प्राप्त करी छे अने देवताओनी स्त्रीओ साथे वेगथी विषय सुखो भोगव्यां छे, पण तुं ते विषे निर्विकल्प बुद्धिथी विचार कर के, जे थईने पाछुं रहे नहीं, ते सुख शीरीते कहेवाय ? तेबुं सुख तो एकांते दुःख रूपज छे २२

एकं वक्रविलोकितेन वचनेनान्यं परं विभ्रमै-  
र्भ्रूभङ्गस्तनदर्शनप्रभृतिभिर्व्यामोहयन्ति स्त्रियः ।

संवेगदुःख-

॥ ९ ॥

इत्येवं कुटिलासु कृत्रिमकृतस्नेहासु तास्वप्यलं  
किं रे चित्त ! रतिं करोषि विमुखां सिद्ध्यङ्गनासङ्गमात् ॥ २३ ॥

१५ स्त्री मोह विषे

॥ सिद्धिरूपी सुंदरीना संगमथी विमुल थह स्त्रीओ तरफ मोह न करवो जोहए ॥  
हे चित्त ! जे स्त्रीओ एक पुरुषने वैक दृष्टिथी, बीजाने वचनथी, बीजाने हावभावना विलासोथी  
अने चोथाने अकुटीनो भंग तथा स्तन वगेरे अंगोना देखाडवाथी मोह पमाडे छे, एवी ते कुटिल,  
अने कृत्रिम स्नेहभाव वतावनारी स्त्रीओने विषे सिद्धि रूपी सुंदरीना संगमथी विमुल एवी  
प्रीति शामाटे करे छे ? ॥ २३ ॥

आत्मन्यभ्यर्णभावं भज किमपि सखे ! शिक्षयामि क्षणं त्वां  
स्वार्थभ्रंशेन कस्मादनवरतमहो मूर्खतामातनोषि ।

चेतस्त्वां तेषु तेषु भ्रमयति सततं पापकृत्येषु शश्व-  
द्भूयोभूयोऽपि येषामहह स भविता दुःसहो दुर्विपाकः ॥ २४ ॥

१ मुक्तिवनितासङ्गमात् । २ वक्रविलोकितेन एवो पण पाठ छे, तो तेनो अर्थ 'मुखदर्शनथी' एम करवो.

३ सागीप्यभावम् ।

॥ पाप कृत्योनुं परिणाम दुःसह अने दुष्ट छे ॥

हे मित्र ! हुं तने क्षणवार शिक्षा आपुं छुं के, जरा तुं तारा आत्सानी समीप जा, शमाटे स्वार्थनो नाश करी हमेशा मूर्खता ने वधारे छे ? जेओनुं परिणाम वारंवार घणुं दुःसह अने नठारं छे एवा ते पाप कृत्योमां तने तारं हृदय निरंतर भमाव्या करे छे ॥ २४ ॥

आत्मन्मोहतमस्तिरस्कृतमते कृत्वा पुरस्त्वामहो

धूर्त्ताः सन्ततमिन्द्रियादय इमे पुष्पणन्त्यभीष्टं निजम् ।

मूढ ! त्वं पुनरेक एव नरके सोढासि बाढं दृढं

छेदाच्छोटनपाटनादि तदरे वाचां न यद्भोचरम् ॥ २५ ॥

॥ धूर्त्त इन्द्रियोना वश पणाथी नरकनी वेदनाओ भोगववी पडे छे ॥

मोहरुपी अधकारथी जेनी बुद्धि ढंकाई गई छे, एवा हे आत्मा ! आ इंद्रिय रुपी धूताराओ तने आगळ करीने हमेशा पोतानुं पोषण कर्था करे छे, पण हे मूढ ! तारे एकलानेज नरकनी अंदर छेदाबुं कपाबुं अने फडाबुं वगेरेनी दृढ वेदनाओ सहन करवी पडशे के जे वेदनाओ वाणीथी पण कही शकाय तेवी नथी ॥ २५ ॥

उन्मादादवमत्य रे शृण्मिव श्रीमद्गुरुणां वचो  
 लजा वीरुदिव द्विपेन भवता निर्मूलमुन्मूलिता ।  
 इत्युत्तीर्णमहो विचारशरणेरेतत्तथाप्युच्यसे  
 भ्रातर्मानसवेदनीयमचिराद्दुश्चेष्टितानां फलम् ॥ २६ ॥

॥ श्रीगुरुना वचननो अनादर करवाशी नठारं फल भोगत्रुं पडे छे ॥

हे भ्राता हृदय ! जेस उन्मत्त हस्ती अंकुशनो अनादर करी लताने मूळमांथी जखेडी नांखे तेम ते  
 उन्माद पणाथी श्रीगुरुना वचननो अनादर करी लज्जाने दूर करी छे, तेथी तुं विचारना मार्ग उपरथी  
 उतरी गयुं छे, तो पण तने कहेतुं जोइए के थोडा बखतमां तारे ते तारा नठारा आचरणोनुं  
 फल वेदतुं पड्यो ॥ २६ ॥

अन्यो जीवः शरीराद्भ्रमति स च भवे पुण्यपापे च भुङ्क्ते  
 कोऽहं दर्शी तदस्मिन्निति हृदय ! कुरु त्वं यथेष्टं विकल्पान् ।

१ अंकुशम् ।

किन्तु ज्ञातव्यमग्रे शठ ! हठवचनैः सर्वमुच्चारयद्भयः

पाश्चात्यं चेष्टितं रे व्यर्पघृण ! परमाधार्मिकेभ्यस्त्वयेदम् ॥ २७ ॥

॥ इच्छा प्रमाणे वर्त्तवाथी पछवाडे परमाधार्मिकोनी शिक्षा भोगववी पडे छे ॥

हे हृदय ! “ आ शरीरथी जीव जुदो छे, अने ते संसारमां भमे छे अने पुण्य तथा पाप भोगवे छे, ते मारे कयां जोवानुं छे ? ” आ प्रमाणे तुं मरजी प्रमाणे विकल्पो कर्था कर, परंतु हे शठ ! ते पछवाडानुं तारुं सर्व चेष्टित हठ करीने कहेनारा अने निर्दय एवा परमाधार्मिको पासेथी ते तारे जाणवानुं छे, एटले परमाधार्मिकोनी शिक्षाथी तने तारा वर्त्तनथी खबर पाछळथी पडशे ॥ २७ ॥

चेतः ! किं सानुरागं युवतिषु सहसा सानुरागं कुरुष्व

ज्ञात्वा स्वार्थैकनिष्ठं स्वजनपरिजनभ्रातृपुत्राद्यशेषम् ।

आमृष्टस्याष्टसङ्ख्यैरनुदिवसमहाकर्मैः कर्मरूपै-

र्विञ्छा स्वाभाविकं चैत्प्रकटयितुममुष्यात्मनः स्वच्छभावम् ॥ २८ ॥

२ हेनिर्दय ! ।

॥ जो आत्माना शुद्ध स्वरूपने ओळखवानी इच्छा होय तो सर्व स्वार्थी परिवारनो अनुराग छोडी देवो जोडणू

हे चित्त ! तुं युवतिओ तरफ शामाटे अनुरागनुं साहस करे छे ? हमेशा मोटा कादव रूप आठ कर्मोथी खरडाएला तारा आत्माना सहज निर्मल स्वरूपने प्रगट करवानी जो तारी इच्छा होय तो स्वजन परिवार, भाईओ अने पुत्रो वगैरे सर्वे स्वार्थमांज निष्ठा राखनारा छे, एहुं जाणी तेमनी तरफ तुं अनुराग करीश नहीं ॥ २८ ॥

आत्मन्नत्राणमार्तं दिशि दिशि तरले चक्षुषी विक्षिपन्तं  
प्रत्यक्षेणेषे रे जनमिममखिलं यान्तंमास्थे यमस्य ।

तत्किं मोहान्ध ! हित्वा विषमिव विषयान् मुक्तनिःशेषसङ्गः

शृङ्गे भूमिधरस्य क्वचिदथ विपिने तप्यसे नोर्ध्वबाहुः ॥ २९ ॥

सर्वत्र दुःखी अने यमराजना मुखमां पडता प्राणीओने जोतां छतां पण जीवने एकांते जह तपनी इच्छा थती नथी ए केवो मोह ?

हे आत्मन्, रक्षण वगरना, पीडा पामता अने 'क्यां जहुं' एवा विचारथी दरेक दिशामां पोताना

१ आस्थे मुखे यान्तं गच्छन्तम् ।

चंचल नेत्रोने फेरवता अने छेवटे यमराजाना मुखमां पडता एवा सर्व लोकोने तुं प्रत्यक्ष जुवे छे, छतां हे मोहान्ध ! विषनी जेम विषयोने छोडी दई अने सर्वना संगनो त्याग करी कोई पर्वतना शिखर उपर अथवा कोई वनमां जई ऊंचा हाथ करी तपस्या शामाटे करतो नथी ? ॥ २९ ॥

ज्ञात्वा सत्वरगत्वरं जगदिदं मोक्षैकबद्धस्पृहा

धन्याः केऽपि धनानि सन्त्यपि तृणानीव त्यजन्ति क्षणात् ।

चेतस्त्वं तु हताश ! यन्न भविता यन्नास्ति यन्नाभव-

द्वाञ्छां तन्दुर्लभस्यवद्वितनुषे तत्रापि कस्ते भ्रमः ॥ ३० ॥

॥ सर्व अनित्य जाणी तृणनी जेम द्रव्यनो त्याग करवो ते सारुं छे अने ते अनित्य तरफ नित्यपणानो भ्रम राखवो ते नठारुं छे

हे चित्त ! केटला एक धन्य पुरुषो मोक्ष ऊपर अति स्पृहा राखीने आ जगतने सत्वर अनित्य जाणी पोताना द्रव्यने तृणवत् गणी क्षणमां छोडी दे छे, अने तुं तो नठारी आशा राखीने जे छे नहीं हता नहीं अने होवाना नथी, तेवा आ जगतना धनादि पदार्थो ऊपर तंदुल जातना मत्स्यनी जेम इच्छा राखी रहे छे, ते तने शो भ्रम थयो छे ? ॥ ३० ॥



उत्तानाम्बुजपत्रविन्दुतरलां 'संसारभङ्गीमिमां  
रे पश्यन्नपि नैव पश्यति भवान् आन्ध्यं तवालौकिकम् ।

कल्याणाय किल स्पृहा यदि गिरिप्राप्तप्रतिष्ठदा

मुञ्चात्मन् ! भवचेष्टितान्यपि गिरिप्राप्तप्रतिष्ठो भव ॥ ३१ ॥

॥ आ संसारनी चेष्टाओ छोडीने पर्वतनी जेम स्थिर रहेबुं जोईए ॥

हे आत्मन् ! उत्तान रहेला कमळना पत्र उपरना विन्दुनी जेम चंचळ एवी आ संसारनी रचना तुं  
जुवे छे, ते छतां तुं जोई शक्तो नथी, ए तारी कोइ अलौकिक अंधता छे, जो तारे कल्याण मेळव-  
वानी इच्छा होय तो तुं पर्वतनी जेम हळ रही आ संसारनी चेष्टाओने छोडीदे अने वौणीमां प्रतिष्ठाने  
प्राप्त करतारो था अथात् विद्वान् मुनिवर था ॥ ३१ ॥

भ्रान्त्वास्मिन् बहुयोनिलक्षगहने संसारवारांनिधौ

मानुष्यं भवता सुरलभित्र रे दुष्प्रापमासादितम् ।

१ संसाररचनां । २ अहिं मूलमा गिरि प्राप्तप्रतिष्ठः एवा वे शब्दो छे, तेमां छेह्वा शब्दनो आत्रो अर्थ अई शके  
छे अथवा पर्वतना जेवडी प्रतिष्ठावालो था एम पण थाय.

तन्निःकृत्रिमधर्मकर्मकनकेनायोज्यते यद्यहो  
त्रैलोक्येऽपि करोति कः किल तदा तस्येह मूल्यं जनः ॥ ३२ ॥

मनुष्य जन्म रूपी रत्न धर्मकर्मरूपी सुवर्णनी साथे जोडवाथी असूल्य बने छे.  
हे आत्मन् ! लाखो योनिओ-जन्मथी गहन एवा आ संसाररूपी समुद्रनी अंदर भ्रमण करीने तें

मनुष्य जन्म रूपी दुर्लभ रत्न प्राप्त करेले छे, ते रत्नने जो निष्कपट धर्म कर्म रूपी सुवर्णनी साथे जोडीश,  
तो ते एवुंज बनशेके जेनुं मूल्य त्रणलोकमां पण कोइ करी शकशे नहीं ॥ ३२ ॥

वातोच्छ्रूतपलालचञ्चल ! सखे ! चेतश्चिरेण त्वया

श्रान्तं कुत्र न कुत्र लम्पट ! सुखप्रत्याशया सर्वतः ।

वाञ्छा वर्द्धत एव केवलमरे तत्सर्वथा शिक्षये

दाक्षिण्येन ममापि निर्धृतिकरं सन्तोषसौख्यं भज ॥ ३३ ॥

बीजा अनित्य सुखनी आशा छोडी दइने-संतोष सुखने भजबुं जोइए-  
हे पवने ऊडाडेला घासना जेवा चंचल अने लंपट चित्त रूपी मित्र ! तुं सर्व तरफ सुख मेळववानी

आशाथी चिरकाक सुधी क्यां क्यां भम्पुं नथी ? इच्छा तो केवल वध्याज करे छे, तेथी हुं तने सर्वथा शीखामण आपुं छुं के, मारी दाक्षिण्यतानी खातर पण तुं निर्वाण-सुखने आपनारा संतोपना सुखने भज जे. ॥ ३३ ॥

सोऽयं मोहमहाग्रहस्य महिमा मार्गादतीतो गिरा-  
माश्चर्यं जननान्तरेऽपि हठादापाद्य चान्ध्यं धियः ।  
दुःखं सौख्यमिति प्रियं रिपुमिति ग्राह्यांश्च हेयानिति  
श्रेयो विघ्नमिति प्रवर्त्तयति यो जीवं स्वकीयेच्छया ॥ ३४ ॥

मोहरूपी महाग्रहनो महिमा वाणीथी पण कही शकाय तेवो नथी.  
हे आत्मन् ! आश्चर्यनी वात छे के, जे मोहरूपी मोटो ग्रह जन्मांतरमां पण बलात्कारे बुद्धिने अंध करी पोतानी इच्छा प्रमाणे आ जीवने दुःखने सुख मानवामां, प्रिय-मित्रने शत्रु मानवामां, ग्राह्यने हेय ( त्याज्य ) मानवामां अने श्रेयने विघ्न मानवामां प्रवर्त्तवि छे. ते आ मोहरूपी महाग्रहनो महिमा वाणीना मार्गथी अतीत छे एटले वाणीथी कही शकाय तेवो नथी. ॥ ३४ ॥

एते दुःखमया इमे विपमया एते हि सायामया  
एतेभ्योऽपि किमस्ति निन्दितमथैतेभ्यो विरूपं किमु ।

इत्थं रे विषयेषु लोलुपतया तैस्तैः प्रकारैः सखे !

चेतः ! किं विनिवार्यमाणमपि धिग् बद्धस्पृहं धावसि ॥ ३५ ॥

विषयोना जेबुं कोइ निंदित नथी. तेथी ते तरफ चित्तने दोडावबुं न जोइए. हे मित्र चित्त ! “ए विषयो दुःखमय छे, ए विषमय छे अने ए मायामय छे, एमना जेबुं निंदित छे अने विरूप शुं छे ?” आवा ते ते प्रकारोवढे विषयोनी लोलुपताथी में तने वार्थुं छे, छतां धिक्कार के, तुं तेमनी तरफ स्पृहा राखीने शामाटे दोड्या करे छे ? ॥ ३५ ॥

त्वद्दृश्योऽयमचेतनः सुखमयो दुःखं समासादये-

जीवः संसृतिवर्त्मनीह गहने विज्ञाप्यसे त्वं ततः ।

दृष्टा हन्त नरामरादिगतयस्तत्सर्वथा सांप्रतं

तत्किञ्चित्कुरु मुक्तिसङ्गममपि प्राप्नोति यस्मादयम् ॥ ३६ ॥

चित्तने वशथइने जीव आ संसार मार्गमां सुख दुःख पास्या करे छे तो तेणे मुक्ति मळे तेबुं कांइक करबुं जोइए.

हे चित्त ! तारे वश थइ अचेतन जेवो बनेलो आ जीव संसारना गहन मार्गमां सुख दुःख पास्या करे

छे, तेथी तने चिन्तिति करवामां आवं छे के, तें देव तथा मनुष्य वगैरेनी गतिओ जोइ छे, तेथी तुं हवे सर्व प्रकारे हाल कांइक एहुं कर के जेथी आ जीव मुक्तिनो संगम प्राप्त करे. ॥ ३६ ॥

किं धात्रा सह सख्यमस्ति भवतः किं वा किमप्यौषधं ?

सिद्धं मृत्युजराविनाशयधिगतं भ्रातः कुतश्चित्तवया ? ।

आत्मन्मोक्षसुखे पराङ्मुख ! सखे ! स त्वं हृषीकैर्जितो

येन स्थैर्यनिविण्णबुद्धिरधिकं निश्चिन्तवच्चेष्टसे ॥ ३७ ॥

मूढ आत्माए एहुं शुं मेलच्युं छे के जेथी ते इंद्रियोना तावामां

स्थिर रहीने निश्चित थइ रख्यो छे.

हे वंधु आत्मा ! शुं तारे विधातानी साथे भैत्री छे ? अथवा तें कोइ पासेथी मृत्यु अने जरावस्थाने नाश करनारं सिद्ध औषध प्राप्त कर्युं छे ? के जेथी हे मित्र ! तुं मोक्षसुखमां विमुख अने इंद्रियोथी जीताएलो वनी बुद्धिनी स्थिरता राखी निश्चित थइ अधिक चेष्टा करे छे ॥ ३७ ॥

१ ह्रींकिंः प्रन्द्रियैः ।

किं मोहः किमयं भ्रमः किमथवोन्मादः प्रमादोऽथवा

जाड्यं किञ्च विपर्ययः किमथवा किं वाज्ञतेयं तव ।

स्निग्धं बन्धुमिवान्तिकस्थमसकृन्मृत्युं न चेनेक्षसे

नित्यं मूढधियां गुरो स्वपिषि रे स्वास्थेन रात्रिदिवम् ॥ ३८ ॥

पासे उभा रहेला मृत्युने नहीं जोतो मूढ आत्मा अहर्निश निरांते सुइ रहे छे. ए केवो मोह?

हे मूढ बुद्धिवाळा पुरुषोना गुरुरूप आत्मा, तुं स्नेही बंधुनी जेम तारीपासे वारंवार उभा रहेला मृत्युने

जोतो नथी अने हंमेशा स्वस्थ थइने अहर्निश सुतो रहे छे, एशुं तने मोह थयो छे, भ्रम थयो छे अथवा

उन्माद थयो छे, वा प्रमाद थयो छे, वा जडता थइ छे, के तारी बुद्धिमां फेरफार थयो छे, के ए तारी

अज्ञता छे ? ( कहे शुं थयुं छे ? ) ॥ ३८ ॥

अद्येदं श्रइदं तथा परैदिदं कृत्यं परौरि त्विदं

चेतश्चिन्तयसीत्थमेव सततं निर्व्याकुलं रे स्फुटम् ।

१ परत् आगामिवर्षे । २ परारि तृतीयवर्षे ।

तत्कालं विलसन्मनोरथलताकान्तारदावानलो

यस्मिन् दण्डधरः स्मरिष्यति सखे ! कोऽप्यस्ति सोऽपि क्षणः ॥ ३९ ॥

चित्त काम करवानी आशामां ने आशामां विविध चिंता कर्था करे छे, पण

अकस्मात् काळ क्यारे आवशे तेनुं तेने स्मरण थतुं नथी-

हे चित्त ! तुं हंमेशा स्पष्टरीते अव्याकुळ थइने “आजे आ काम करीश, काले आ काम करीश, आवते वर्षे आ काम करीश अने परारने वर्षे आ काम करीश” एम निरंतर चिंतव्या करे छे, पण हे मित्र ! विलास पामता मनोरथरूपी लताना वनने बाळवामां दावानळ जेवो दंडधारी काळ जे समये तने संभारशे तेवो कोइ पण समय आववानो छे, ते निश्चे याद राखजे. ॥ ३९ ॥

सत्यं हारीणि हंहो हृदय ! मृगदृशां विभ्रमादभ्रभूरि-

भ्रूभङ्गोज्ज्वलितजुषामत्र लीलामयितानि ।

आसुक्तेसुकबाहुस्तदपि गतघृणः प्राणिनां जीवितानि

क्रीडन्नप्येष कालः कवलयति बलात्किन्तु दूराद्विकृष्य ॥ ४० ॥

१ दण्डधरः कालः । २ हारीणि मनोहारीणि । ३ मुक्तिं मर्यादीकृत्य ।

સ્ત્રીઓની લીલાઓ મનોહર છે, એ વાત સાચી છે, પણ નિર્દયકાઠ તેમાંથી પળ પ્રાણીઓને બલાત્કારે લેંચી લે છે.

હે હૃદય ! પોતાના હાવભાવના વિલાસો અને ઘણાં શ્રુકુટીના ચાઢાથી વધેલા કામદેવના ચરિત્રોને સેવનારી મૃગાક્ષીઓની લીલાઓ સરેસર મનોહર લાગે છે, પણ મુક્તિ શિવાય બીજે જેના છુટા હાથ છે એવો નિર્દય કાઠ ક્રીડા કરતો કરતો બલાત્કારે દૂરથી લેંચીને પ્રાણીઓના જીવનનો કોઢીઓ કરી જાય છે. ॥ ૪૦ ॥

યા એવં સ્ફારતારદ્યુતિભરવિશદોદારહારાભિરામ-  
પ્રોદ્ધામાભોગતુઙ્ગસ્તનકલશજુષો મોહયન્તિ સ્મ ચેતઃ ।  
તા એવૈતર્હિ માત્રં સકલમપિ જરાજર્જરં ધારયન્ત્યો  
વિદ્વેષાયેતિ મત્વા કથમિવ કુરુષે તાત્વિકીં તાસુ બુદ્ધિમ્ ॥ ૪૧ ॥

સુંદર સ્ત્રીઓની પણ જરાવસ્થા વિચારીને તેઓમાં તાત્વિકી બુદ્ધિ ન રાખવી જોઈએ. હે આત્મન્ ! વિસ્તારવાઢી કાંતિઓના સમૂહથી ઉજ્વલ એવા મોટા હારોથી જેમનો વિશાલ ભાગ સુંદર દેસાચ છે અને જેઓ ંચા શિશરવાઢા છે, એવાસ્તન કલશને ધારણ કરનારી સ્ત્રીઓ તારા ચિત્તને



मोह पमाडे छे, पण तेज स्त्रीओना सर्व अंगो ज्यारे जरावस्थाथी जर्जरीभूत थाय छे, त्यारे ते तरफ तने केवो द्वेष भाव थाय छे ? आ प्रमाणे मान्या छतां पण तुं ते स्त्रीओमां तात्विक बुद्धि केम करे छे ? कारण के, ते वस्तुताए तात्विक छेज नहीं. ॥ ४१ ॥

हंहो लज्जाविहीन ! प्रतिदिवसमिदं शिक्षायामो भवन्तं

मागाः स्त्रीणां समीपं हतकहृदय ! रे ता हि मायासरस्यः ।

तासामालोक्य रूपं मृग इव तृषितः सस्पृहं धावसि त्वं

तृष्णासन्तापवृद्ध्यै तव तु तदधिकं कारणं मूढ ! किञ्चित् ॥ ४२ ॥

मृगतृष्णा जेवी स्त्रीओनी तरफ तृष्णातुर थइ दोडुं, ए संतापने वधारनाहं छे.

हे निर्लज्ज अने हत्यारा हृदय ! असो तने हमेशा केटली शीखामण आपी ए ? तुं स्त्रीओ तरफ जा नहीं. कारण के ते स्त्रीओ मृगतृष्णा जेवी छे. तेमनुं रुप जोइ मृगनी जेम तुं तृषित अने स्पृहातुर थइ तेमनी तरफ दोडे छे. पण हे मूढ ! तने तृष्णाना संतापनी वृद्धि करवामां ते कांइक वंधारे कारण रूप छे, एम समजजे. ॥ ४२ ॥

तैस्तैः कस्तूरिकाद्यैः स्तंबकितमपि यद्याति दौर्गन्ध्यमारा-  
न्निष्ठा यस्येह विष्ठा कृमिकुलमथवा भूरिभस्माथवापि ।  
कृत्वा धर्मस्य बाधामनुदिवसमरे वञ्चनाभिः परेषा-

मात्मन् ! कोऽयं विमोहस्तव तदपि वपुः पाल्यते यत्स्वयेत्थम् ॥ ४३ ॥

जे शरीर अंते विष्ठा, कीडा अने भस्म रूप थवानुं छे, तेवा शरीरनुं  
अधर्मथी पालन कर्मा करबुं न जोइए-

हे आत्मन् ! जे आ शरीर कस्तूरी प्रमुख सुगंधोथी भरपूर राखुं होय तो पण दुर्गंधने छोडतुं नथी  
अने जे छेवटे विष्टारूप, कृमिरूप अथवा घणुं भस्म रूप बने छे, ते छतां धर्मने बाधाकरी अने बीजाओने  
प्रतिदिन छेतराने तुं ते शरीरनुं इच्छा प्रमाणे पालन-पोषण करे छे, ए तने शो मोह थयो छे ? ॥ ४३ ॥

यैः सार्द्धं विप्रयोगः क्षणमपि मरणस्यैव कोऽपि प्रकारः  
कृत्याकृत्यं न किञ्चिद्विगणयति कृते हन्त येषां विमूढः ।

१ गुच्छयुक्तं ।

प्रेमार्द्रा अप्यमी रे गतवति भवति प्रेक्षतां प्रेतर्भुः

क्षिप्त्वा त्वत्कायमेनं हुतभुजि सुजनाः किं स्मरिष्यन्त्यपि त्वाम् ॥ ४४ ॥

जे स्नेही संबंधीओ तरफ पूर्ण प्रेम बताववामां आवे छे, तेओ पण

आखरे शरीरने अग्निमां होमीने चाल्या जवाना छे.

हे आत्मन् ! जेओनी साथे एक क्षणवार वियोग थतां जाणे मरणनो एक प्रकार थयो, एवुं तने दुःख लागे छे अने जेमने माटे तुं मूढ जेवो बनी कांइ कार्य-अकार्यने गणतो नथी, तेवा प्रेमार्द्र स्नेही संबंधीओ पण ज्यारे तुं काळनी नजरे आवीश-मरण पामीश, त्यारे तारा शरीरने अग्निमां होमीदेशे पछी तेओ शुं तने संभारवाना हता ? ॥ ४४ ॥

मायाभ्यासे गुरुस्ते समभवदिहरे कोऽत्र संसारचक्रे

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा किमस्मिन्नियमितरपरित्यागतः शिक्षितैका ।

यत्प्राणेभ्योऽप्यभीष्टान्निर्धैतिकवलितान् वीक्ष्य गाढं रुदित्वा

चेतः प्रोन्मुक्तकण्ठं पुनरपि कुरुषे स्वानि लीलायितानि ॥ ४५ ॥

प्राणथी पण प्रिय एवा जनोने मरणने वश थतां जोइ रुदन करतो प्राणी पण पोतानी पाछी पूर्वनी चेष्टाओने सुली जतो नथी.

हे चेतन ! आ संसार चक्रमां भमी भमीने तने मायानो अभ्यास करावनार गुरु कोण मल्यो छे? के जेनी पासेथी तें बीजुं छोडी दइने आ एक शिक्षा मेळवी छे. जे शिक्षाने लइने तुं प्राणथी पण प्रिय एवा जनोने काळनो कोळीयो थतां जोइ छुटे कंठे गाढ रुदन करे छे, छतां तुं पूर्व प्रमाणे पोतानी चेष्टाओ पुनः पाछो करवा लागे छे. ॥ ४५ ॥

त्वत्तः कोऽपि न मूढधीरिह जने जानामि चेतः सखे !

येनास्याक्षकुंडुम्बकस्य सहसा विश्वासमागच्छसि ।

एतस्मिन् प्रतिबिम्बिते हि विषयग्रामो यथा दर्पणे

भानुस्तापयते परं ननु तथा त्वां मूर्ख ! दुःखातिथे ! ॥ ४६ ॥

इंद्रियोना समूहनो विश्वास करवो न जोइए.

हे मित्र चित्त ! तुं जे आ इंद्रियोना समूहनो तरत विश्वास करे छे, ते उपरथी हुं जाणुं छुं के,

१ इंद्रियसमूहस्य ।

लोकमां तारा करतां मूढ बुद्धिवाळो कोइ पण नहीं होय. हे दुःखना अतिथि मूर्ख ! दर्पणमां प्रतिबिंबित थयेला सूर्यनी जेम तारामां प्रतिबिंबित थयेलो इंद्रियोनो समूह विषय समूहथी तने निश्चे ताप पमाडे छे. ॥४६॥

श्रुत्वा श्रुत्वा गुरुभ्यः स्वयमपि च तथा वीक्ष्य वीक्ष्यातिभीमं  
संसारं दुःखसारं किमपि भयवशः सर्वथा प्रार्थयामि ।  
चेतः ! कृत्वा प्रसादं परिहर सकलानेव मिथ्याविकल्पान्  
आतर्भृत्यस्तवाहं विरम विरम रे भङ्गुराद्भोगसङ्गात् ॥ ४७ ॥

बधा मिथ्या विकल्पो छोडी आ नाशवंत भोगना संगथी विराम पामवुं जोइए.  
हे चित्त ! गुरुओ पासेथी सांभळी सांभळीने अने आ भयंकर दुःखमय संसारने पोतानी जाते जोइ जोइने हुं भय पामी तने सर्व रीते प्रार्थना करुं छुं के, हे भाई ! तुं मारी उपर मेहेरबानी करी सर्व प्रका- रना मिथ्या विकल्पो छोडी दे. अने हुं तारो सेवक थइने कहुंछुं के, तुं आ नाशवंत भोगना संगमांथी विराम पामी जा. ॥ ४७ ॥

चेतस्त्वं सहचारि मे त्वदनुगः सौख्यानि दुःखानि वा ।  
सर्वत्रापि सहाम्यहं तदपि रे दाक्षिण्यतो भण्यसे ।

१ नश्वरात् ।

लब्धं मानुषजन्म दुर्लभमिह प्राप्तं च जैनं मतं  
हा हा हारयसे कथं हतमते ! निर्लज्ज ! निर्लक्षण ! ॥ ४८ ॥

॥ दुर्लभ एवा मनुष्य जन्मने अने जैनमतने प्राप्त करी तेने हारी जवो न जोइए ॥

हे चित्त ! तुं मारी साथे फरनारुं छे अने हुं तारी पाछळ अनुसरी सर्व ठेकाणे सुखो अने दुःखो सहन करंछुं. तथापि हुं तने दाक्षिण्यताथी कहुंछुं के हे बुद्धिहीन निर्लज्ज अने लक्षण रहित ! खेदनी वात छे के तने दुर्लभ एवो मनुष्य जन्म अने जैन मत प्राप्त थयो छे छतां तुं तेने शामाटे हारी बेशे छे ? ॥ ४८ ॥

संहृत्येन्द्रियवर्गमर्गलभिमं रुद्ध्वा च बाह्यान्तरं  
व्यापारं गिरिकन्दरेषु यदि रे ज्योतिः परं ध्यायसि ।  
चेतः कोऽपि तदा तवाशु स भवत्यानन्दसौख्योदयः  
संसारे भ्रमता न यः क्वचिदपि स्वप्नेऽपि संवादितः ॥ ४९ ॥

१ सहशीभूतः अनुभूतो वा ।

॥ जो बाह्य अने अंतरनो व्यापार छोडी एकांते परम ज्योतिनुं ध्यान करवामां  
आवे तो परम आनंदनुं सुख प्राप्त थाय छे ॥

हे चित्त ! जो इंद्रियोना उच्छृंखल वर्गनो संहार करी अने बाह्य तथा अंतरना व्यापारनो निरोध  
करी कोइ पर्वतनी गुफामां बेशी तुं परम ज्योतिनुं ध्यान करीश तो आ संसारमां अमण करतां कोइ  
ठेकाणे स्वप्नामां पण नहीं अनुभवेला परम आनंदनुं सुख तने सत्वर प्राप्त थशे. ॥ ४९ ॥

संसारोऽयमसारवस्तुविसरः को वेत्ति कश्चित्पुन-  
र्मानुष्यं भविता कदापि सुगुरुलभ्योऽपि वा कर्हिचित् ।  
दुर्वारप्रसराः कृतान्तसुभटा मर्त्तव्यमेव ध्रुवं  
तत् त्वं स्वान्त ! नितान्तकान्तमपरं प्रेक्षस्व तत्त्वान्तरम् ॥ ५० ॥

॥ आ असार संसारमां मृत्यु तो अवश्य थवानुं छे माटे परमतत्त्वनुं  
दर्शन अवश्य करवुं जोइए ॥

आ संसार असार वस्तुओनो प्रसार करनारी छे तेमां फरीवार मनुष्यपणुं प्राप्त थशे अने कदापि  
तेमां सारा गुरु मळी आवशे, एबुं शुं कोइ जाणी शके छे ? तेमज यमराजना दूतोनो वेग अटकावी

शकाय तेवो नथी तेथी मरवानुं तो अवश्य छेज. माटे हे चित्त ! अति उत्तम एवुं कोइ बीजुं तत्व अवलोकन कर ॥ ५० ॥

श्रीचक्रेश्वरसूरिमानससरोहंसः समुत्साहितः  
सत्यं सज्जनदुःखकैरवरवेः श्राद्धस्य वाचा रवेः ।  
आचार्यो विमलाभिधः समकृत श्रीब्रह्मचन्द्रापर-  
ख्याताभिख्य इमां मनो रमयितुं सद्गुत्तपश्चाशतम् ॥ ५१ ॥

॥ ग्रंथकार प्रशस्ति ॥

श्रीचक्रेश्वरसूरिना मानस (मनरुपी) सरोवरमां हंसरूप अने जेमनुं बीजुं विख्यात नाम श्रीब्रह्मचंद्र छे एवा श्रीविमलाचार्ये सज्जनोना दुःखरुपी पोयणाने चन्द्रविकाशि कमलने नाश करवामां रवि-सूर्य समान एहवा रवि नामना श्रावकना वचनथी खरेखर उत्साहित थइने घोताना मनने आनंद आपवाने माटे सारा वृत्तवाळो आ पचाश श्लोकनो ग्रंथ रचेलो छे. ॥ ५१ ॥

आकाङ्क्षा यदि मोक्षवर्त्मनि मतिः सन्तोषसौख्ये यदि  
प्रद्वेषो विषयेषु यद्यथ रतिर्नीरागतायां यदि ।

१ एतन्नामः श्रावकस्य । २ श्रीब्रह्मचन्द्र इत्यपरनामा ।



तच्छुद्धां विधुः।।ऽपि कोमलतरामप्यब्जगर्भादिमां  
संवेगदुःखकन्दलीं पठत भो बद्धो भवद्भयोऽञ्जलिः ॥ ५२ ॥

॥ संवेगदुःखकन्दली समाप्ता ॥

॥ आ ग्रंथना पाठको प्रत्ये प्रार्थना ॥

जो तमारी मोक्षमार्गे जवानी इच्छा होय, संतोषनुं सुख मेळववानी बुद्धि होय, विषयो उपर द्वेष आवतो होय, अने वैराग्य उपर प्रीति होय, तो चंद्रशी पण उज्ज्वळ अने कमळना गर्भशी पण अति कोमळ एवी आ संवेगदुःख कंदली (ग्रंथ)ने भणजो, एवी तमोने मारी अंजलि-हाथ जोडीने प्रार्थना छे ॥५२॥

॥ समाप्त ॥

मुम्बय्यां निर्णयसागरमुद्रालये कोलभाटवीथ्यां २३ तमे रामचंद्र येसू शेट्टे द्वारा मुद्रयित्वा प्रकाशितं

संवत् १९७५. सन १९१८.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya-sagar Press, 23, Kolbhat Lane, Bombay.  
Published by Lalbhai Motilal, Honorary Secretary, Shri Hansvijayi Jain free Library, Baroda.

